



पीएम किसान की अगली किस्त

drishtias.com/hindi/printpdf/next-instalment-of-pm-kisan

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक वचुअल कार्यक्रम के माध्यम से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ की अगली किस्त जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18000 करोड़ रुपए जमा किये गए हैं।
- फरवरी 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में पहुँच चुकी है।

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN):

- यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। योजना का कार्यान्वयन 'केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना की पहली वर्षगांठ पर, 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया 'पीएम-किसान मोबाइल एप' लॉन्च किया गया था।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा भू-स्वामित्व (आकार के भेदभाव के बगैर) वाले सभी किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है।
- इस योजना के लिये लाभार्थी किसान परिवारों के पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की होती है।
- उद्देश्य:
 - किसानों की इनपुट लागत कम करना।
 - फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना।
 - किसानों को उनकी फसल बेचने के लिये नए बाज़ार खोलना।
 - लघु और सीमांत किसानों (SMF) की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।

किसान केंद्रित सुधार:

- काफी समय से लंबित **स्वामीनाथन समिति** की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, किसानों के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारित किया गया और साथ ही ऐसी फसलों की संख्या में भी वृद्धि की गई जिनके लिये MSP उपलब्ध है।
- एक हजार से अधिक ऑनलाइन **कृषि मंडियों** को जोड़ा गया।
- छोटे किसानों के समूह बनाने की दिशा में काम किया ताकि वे अपने क्षेत्र में एक सामूहिक शक्ति के रूप में काम कर सकें।
 - 10,000 से अधिक **किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** की स्थापना हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, इन FPOs को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
- **आयुष्मान भारत** योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज ने किसानों की चिंता को कम किया है।
- कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों को बेहतर विकल्प प्रदान किये जा रहे हैं।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**
- **नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea)**
- सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिये **किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान** या पीएम कुसुम (PM-KUSUM) योजना।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY)**

स्रोत: पीआईबी
